

परिशिष्ट सारणी VI.1: एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़)

मद	मार्च 2023 के अंत में	मार्च 2024 के अंत में	मार्च 2025 के अंत में	सितंबर 2025 के अंत में	प्रतिशत अंतर 2024-25
1	2	3	4	5	6
1. शेयर पूंजी	1,26,078	1,45,110	1,49,415	1,50,740	3.0
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	8,55,926	10,50,737	12,46,845	13,17,421	18.7
3. जनता की जमाशियां	84,975	1,02,959	1,21,178	1,31,730	17.7
4. कुल उधार (ए+बी)	29,79,316	34,66,283	41,81,214	44,99,426	20.6
ए. जमानती उधार	17,51,419	20,30,531	24,27,962	26,30,052	19.6
ए.1. डिबेंचर	6,22,812	6,69,362	7,84,570	8,90,440	17.2
ए.2. बैंकों से उधार	9,07,622	10,76,863	12,39,858	12,91,793	15.1
ए.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	76,426	99,442	1,18,061	1,17,728	18.7
ए.4. अर्जित ब्याज	15,246	17,033	16,072	15,935	-5.6
ए.5. अन्य	1,29,314	1,67,831	2,69,401	3,14,157	60.5
बी. गैर-जमानती उधार	12,27,897	14,35,753	17,53,252	18,69,374	22.1
बी.1. डिबेंचर	4,84,713	5,63,638	6,92,128	7,29,784	22.8
बी.2. बैंकों से उधार	2,18,426	2,61,226	3,16,790	3,67,708	21.3
बी.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	13,149	17,715	22,138	27,131	25.0
बी.4. रिश्तेदारों से उधार	2,380	2,606	2,675	3,341	2.6
बी.5. अंतर-कॉरपोरेट उधार	99,564	1,05,415	1,37,537	1,59,401	30.5
बी.6. वाणिज्यिक पत्र	83,620	1,05,439	1,35,232	1,56,199	28.3
बी.7. अर्जित ब्याज	17,659	21,049	23,360	26,075	11.0
बी.8. अन्य	3,08,386	3,58,665	4,23,392	3,99,735	18.0
5. वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3,42,634	3,74,381	4,10,474	4,51,840	9.6
कुल देयताएं/ कुल आस्ति	43,88,930	51,39,470	61,09,126	65,51,157	18.9
1. ऋण और अग्रिम	34,13,804	40,52,732	48,38,744	52,05,544	19.4
1.1. जमानती	23,72,459	30,79,982	36,76,488	39,37,921	19.4
1.2. गैर-जमानती	10,41,346	9,72,750	11,62,256	12,67,622	19.5
2. निवेश	5,33,421	6,66,796	7,84,621	8,18,990	17.7
2.1. सरकारी प्रतिभूतियां	91,855	1,23,248	1,54,915	1,71,401	25.7
2.2. इक्विटी शेयर	2,82,786	3,81,704	4,13,127	3,86,412	8.2
2.3. अधिमानी शेयर	7,081	8,609	9,045	9,209	5.1
2.4. डिबेंचर और बॉण्ड	33,169	37,842	57,175	59,525	51.1
2.5. म्यूचुअल फंड के यूनिट	66,196	57,142	76,431	1,10,121	33.8
2.6. वाणिज्यिक पत्र	1,177	2,571	3,056	5,583	18.9
2.7. अन्य निवेश	51,158	55,680	70,873	76,739	27.3
3. नकद और बैंक जमा शेष	1,72,105	1,73,559	2,30,508	2,41,021	32.8
जिनमें से:					
3.1. हाथ में नकदी	6,411	6,627	6,630	24,563	0.0
3.2. बैंकों के पास जमाशियां	1,52,967	1,51,879	2,06,279	1,99,269	35.8
4. अन्य	2,69,600	2,46,383	2,55,254	2,85,602	3.6
मेमो मद					
1. पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई)	3,08,043	4,18,225	4,52,137	4,65,880	8.1
जिनमें से: इक्विटी शेयर	2,02,727	2,85,273	3,03,694	2,94,724	6.5
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमई	7.0	8.1	7.4	7.1	
3. लीवरेज अनुपात	4.4	4.2	4.2	4.3	

-: लागू नहीं अथवा उपलब्ध नहीं अथवा शून्य।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है। प्रतिशत के आंकड़े पूर्णांकित हैं।

2. अपर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) के लिए डेटा।

3. यह डेटा आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार लेयर्स आधार पर एनबीएफसी के वर्गीकरण पर आधारित है। मार्च-2025 तक एनबीएफसी की लेयर-वाइज पहचान 31 दिसंबर 2024 तक उनकी स्थिति पर आधारित है। जनवरी और सितंबर 2025 के बीच जहां एनबीएफसी-लेयर में बदलाव हुआ है, उसे छोड़कर सितंबर-2025 के लिए, उसी स्थिति पर विचार किया गया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।